



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2019/भाद्र 1, 1941

No. 483]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2019/BHADRA 1, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 594(अ).—खजूर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2019 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) 1986 तक संशोधित की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का विचार है, को उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. सभी आपत्तियों और सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई सुझाव देना चाहता है, वह अपना सुझाव ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को भेज सकता है, जो इन सुझावों को केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ भेज सकता है।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खजूर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2019 है।

(2) ये फॉयनिक्स डेक्टिलीफेरा एल.से प्राप्त खजूर (गुठली सहित और गुठली रहित) पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :-** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो. -

- (क) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;
- (ख) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार खजूर का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो;
- (ग) “प्राधिकार प्रमाण पत्र” से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा खजूर के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है;
- (घ) “साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम” से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;
- (ङ) श्रेणी अभिधान चिह्न से नियम 3 में निर्दिष्ट “एगमार्क प्रतीक” अभिप्रेत है; तथा
- (च) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) और साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में हैं।

3. **श्रेणी अभिधान चिह्न :-** श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्यांक, “एगमार्क” शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची-। में यथारूप से दिए गए सदृश्य श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना “एगमार्क प्रतीक” होगा।

4. **श्रेणी अभिधान :-** खजूर की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जो अनुसूची-॥ और अनुसूची-॥॥ के श्रेणी अभिधान से संबंधित मापदंड के कॉलम एक में वर्णित किया गया है।

5. **गुणवत्ता :-** इन नियमों के प्रयोजन के लिए खजूर की गुणवत्ता अनुसूची-॥ और अनुसूची-॥॥ में दिए गए अनुसार होगी।

6. **पैकिंग करने की विधि :-** (क) खजूर की पैकिंग नए, स्वच्छ और शुष्क जूट के थैलों या कपड़े के थैलों या पॉलीथीन थैलों जिनकी आंतरिक लाइनिंग फूड ग्रेड सामग्री की होगी या बायोडिग्रेडेबल पैकिंग सामग्री, या फूड ग्रेड के पॉलीथीन थैलों या अन्य ऐसी किसी पैकिंग सामग्री में पैक किया जाएगा जो कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हो;

(ख) पैकेजिंग सामग्री कीट और फफूंदी के प्रभाव से मुक्त होगी और इससे उत्पाद में किसी विषाक्त पदार्थ, अवांछित गंध अथवा स्वाद का असर अथवा रंग नहीं आना चाहिए;

(ग) खजूर की पैकिंग विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएँ) नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित पैक आकारों में और कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएगी;

(घ) समान लॉट/ बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा;

(ङ) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का खजूर होगा;

(च) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके।

7. **चिह्नांकन की पद्धति और लेबल लगाना :-**

(1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा।

- (2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा, अर्थात:-
- (क) वस्तु का नाम;
 - (ख) श्रेणी;
 - (ग) किस्म (वैकल्पिक);
 - (घ) लॉट नंबर;
 - (ङ.) पैकिंग की तारीख;
 - (च) शुद्ध भार;
 - (छ) पैकर का नाम और पता;
 - (ज) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित);
 - (झ)माह.....वर्ष के पूर्व उपयोग हेतु सर्वोत्तम;
 - (ञ) कोई अन्य विवरण जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (पैकेज की गई वस्तुएं) नियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और अन्य कोई नियम जो उस समय पर लागू हो या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- (3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयोग की गई स्याही से खजूर को संदूषित न करे;
- (4) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित नहीं करेगा।
8. **प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें :-** (i) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेगा।
- (ii) खजूर की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर निर्धारित मापदंडों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी अथवा एसोसिएशन प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्य प्रयोगशाला के साथ संपर्क करेगा जिसका प्रबंधन सामान्य श्रेणीकरण चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जा रहा हो;
 - (iii) परिसरों को समुचित संवातन और प्रकाश सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ स्थितियों में रखा जाएगा। इन कार्यों में लगे हुए कर्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे;
 - (iv) प्राधिकृत पैकर परिसर में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह नमी, किसी तरह के कृतकों और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होगा;
 - (v) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

अनुसूची-I
(नियम 3 देखें)
(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)



वस्तु का नाम.....

श्रेणी.....

अनुसूची -II
(नियम 4 और 5 देखें)

गुठली रहित खजूर का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

1. खजूर की प्राप्ति शुष्क, ठोस व स्वच्छ फॉयनक्स डेक्टलीफेरा एल. किस्मों की अनुरूपता वाले खजूर के फलों से होगी जिसे मानव खपत हेतु उपयुक्त रूप से उपचारित, धोया हुआ, पाश्चुराइज्ड अथवा प्रसंस्कृत किया गया हो।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) खजूर (गुठली रहित) में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी:-

(क) यह अच्छी तरह साफ किया हुआ होगा;

(ख) इसका रंग एक समान होगा और पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में होगा ;

(ग) स्वाद और जायका खजूर की किस्म की विशेषताओं के अनुरूप होगा ;

(घ) किसी विजातीय स्वाद, गंध और खमीरीकरण के प्रभाव से मुक्त होगा;

(ङ.) जीवित, मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, कीट अंडों, कृतकों, भुकड़ियों तथा संदूषण से मुक्त होगा; तथा

(च) किसी भी तरह के योजित रंजक पदार्थ से मुक्त होगा।

(ii) घरेलू व्यापार:- घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषण, कीट नाशी जीवों और नाशकजीवमारों, संदूषण सूक्ष्म अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर के संबंध में निर्बंधनों और खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जीव-विष और अपशिष्ट) विनियम 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अधिसूचित अन्य विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(iii) निर्यात व्यापार:- निर्यात के मामले में यह भारी धातुओं, कीटनाशी जीवों की अपशिष्ट सीमाओं और कोडेक्स एलिमेटेरियस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों निर्यात व्यापार के लिए या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड

तालिका

श्रेणी अभिधान	नमी का प्रतिशत परिमात्रा के आधार पर (अधिकतम)	विजातीय पदार्थ का प्रतिशत परिमात्रा के आधार पर (अधिकतम)	10 फलों का औसत भार (ग्राम में) (न्यूनतम)	पिट्स (स्टोन्स) (प्रति सौ ग्राम खजूर) (अधिकतम)	धब्बेदार एवं क्षतिग्रस्त खजूर (गिनती के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)	हाइड्रोक्लोरिक एसिड(तनु) में अधुलनशील राख (परिमात्रा के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	14.0	अनुपस्थित	7.0	अनुपस्थित	अनुपस्थित	0.1
मानक	17.0	0.20	6.0	4	2.0	
साधारण	20.0	0.50	4.0	4	5.0	

स्पष्टीकरण.- इस तालिका के लिए

(क) “विजातीय पदार्थ” का अभिप्राय, तनों, खोल के टुकड़ों, गुठलियों, रेशों और छिलकों आदि से है।

(ख) “धब्बेदार खजूर” सूर्य की झुलसाहट, बदरंगता, सतह पर गहरे दागों से प्रभावित खजूर।

(ग) “क्षतिग्रस्त खजूर” मसलने और/अथवा यांत्रिक चोट के कारण गूदे के फटने जिसमें गुठली दिखाई पड़ने लगती है, के कारण प्रभावित खजूर। इसके कारण खजूर की बनावट, खाद्य और अनुरक्षण गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है अथवा इसके बाह्य स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है।

4. अन्य अपेक्षाएँ : (i) खजूर (गुठली रहित) की दशा ऐसी होगी कि वह :-

(क) यातायात और हैंडलिंग आदि की स्थिति का सामना कर सके;

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके।

(ii) गुठली रहित खजूर को ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा तथा स्वच्छ और स्वास्थ्यजनक स्थिति में रखा जाएगा।

(iii) आकार वर्गीकरण :- खजूर का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाए :-

तालिका

क्रम संख्या	आकार	500 ग्राम में खजूरों की संख्या
1	छोटे	100 से अधिक
2	मध्यम	80 से 100
3	बड़े	80 से कम

आकार को पैकेजों पर अंकित किया जाएगा।

(iv) खजूर को एक या इससे अधिक संघटकों जैसे शुगर, सुक्रोज, इनवर्ट शुगर, डेक्स्ट्रोस, शुष्क ग्लूकोज सिरप, फ्लोर, वनस्पति तेल और शहद जो भी उत्पाद के लिए उपयुक्त हो के साथ संसाधित किया जा सकता है।

अनुसूची -III

(नियम 4 और 5 देखें)

खजूर (गुठली सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

1. खजूर (गुठली सहित) की प्राप्ति शुष्क, ठोस व स्वच्छ फॉयनिक्स डेक्टिलीफेरा एल. किस्मों की अनुरूपता वाले खजूर के फलों से प्राप्त की जाएगी जिसे मानव खपत हेतु उपयुक्त रूप से उपचारित, धोया हुआ, पाश्चुराइज्ड अथवा प्रसंस्कृत किया गया हो।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :-

(i) खजूर (गुठली सहित) में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

- (क) यह अच्छी तरह साफ किया हुआ होगा;
- (ख) इसका रंग एक समान होगा और पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में होगा ;
- (ग) स्वाद और जायका खजूर की किस्म की विशेषताओं के अनुरूप होगा ;
- (घ) किसी विजातीय स्वाद, गंध और खमीरीकरण के प्रभाव से मुक्त होगा;
- (ङ.) जीवित, मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, कीट अंडों, कृतकों, भुकड़ियों तथा संदूषण से मुक्त होगा; तथा
- (च) किसी भी तरह के योजित रंजक पदार्थ से मुक्त होगा ।

(ii) घरेलू व्यापार:- घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषण, कीट नाशी जीवों और नाशकजीवमारों, संदूषण सूक्ष्म अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर के संबंध में निर्वधनों और खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जीव-विष और अपशिष्ट) विनियम 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अधिसूचित अन्य विनियमों के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(iii) निर्यात व्यापार:- निर्यात के मामले में यह भारी धातुओं, कीटनाशी जीवों की अपशिष्ट सीमाओं और कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों निर्यात व्यापार के लिए या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड

तालिका

श्रेणी अभिधान	नमी का प्रतिशत परिमात्रा के आधार पर (अधिकतम)	विजातीय पदार्थ का प्रतिशत परिमात्रा के आधार पर (अधिकतम)	10 फलों का औसत भार (ग्राम में) (न्यूनतम)	पिट्स (स्टोन्स) (प्रति सौ ग्राम खजूर) (अधिकतम)	धब्बेदार एवं क्षतिग्रस्त खजूर (गिनती के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)	हाइड्रोक्लोरिक एसिड(तनु) में अघुलनशील राख (परिमात्रा के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	12.0	अनुपस्थित	6.0	70	अनुपस्थित	0.1
मानक	16.0	0.5	5.0	80	2.0	
साधारण	20.0	1.0	4.0	100	5.0	

स्पष्टीकरण :- इस तालिका के लिए

(क) “विजातीय पदार्थ” का अभिप्राय, तनों, खोल के टुकड़ों, गुठलियों, रेशों और छिलकों आदि से है ।

(ख) “धब्बेदार खजूर” सूर्य की झुलसाहट, बदरंगता, सतह पर गहरे दागों से प्रभावित खजूर ।

(ग) “क्षतिग्रस्त खजूर” मसलने और/अथवा यांत्रिक चोट के कारण गूदे के फटने जिसमें गुठली दिखाई पड़ने लगती है, के कारण प्रभावित खजूर । इसके कारण खजूर की बनावट, खाद्य और अनुरक्षण गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है अथवा इसके बाह्य स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है ।

4. अन्य अपेक्षाएँ :- (i) खजूर (गुठली सहित) की दशा ऐसी होगी कि वह-

- (क) यातायात और हैंडलिंग आदि की स्थिति का सामना कर सके;
- (ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके ।

(ii) गुठली सहित खजूर को ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा तथा स्वच्छ और स्वास्थ्यजनक स्थिति में रखा जाएगा।

(iii) आकार वर्गीकरण :- खजूर का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाए.-

तालिका

क्रम संख्या	आकार	500 ग्राम में खजूरों की संख्या
1	छोटे	100 से अधिक
2	मध्यम	80 से 100
3	बड़े	80 से कम

आकार को पैकेजों पर अंकित किया जाएगा।

(iv) खजूर को एक या इससे अधिक संघटकों जैसे शुगर, सुक्रोज, इनवर्ट शुगर, डेक्स्ट्रोस, शुष्क ग्लूकोज सिरप, फ्लोर, वनस्पति तेल और शहद, जो भी उत्पाद के लिए उपयुक्त हो, के साथ संसाधित किया जा सकता है।

[फा. सं. क्यू -11047/03/2018-मानक]

प्रशांत कुमार स्वाई, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2019

G.S.R. 594(E).—The following draft of the Dates Grading and Marking Rules, 2019 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) is as amended up to 1986, as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

2 All objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government;

3. Any person desirous of making any suggestion in respect of the said draft rules, may forward the same, within the period specified above, to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001, who shall forward the same to the Central Government for consideration.

DRAFT RULES

- Short title, application and commencement:-** (1) These rules shall be called Dates Grading and Marking Rules, 2019.
(2) They shall apply to Dates (Unpitted and Pitted) from *Phoenix dactylifera* L.
(3) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.
- Definitions:-** these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
(b) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark Dates in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;

- (c) "certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Dates with the grade designation mark;
 - (d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
 - (e) "grade designation mark" means the "AGMARK Insignia" referred to in rule 3; and
 - (f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and General Grading and Marking Rules, 1988 shall have the same meaning as are assigned to them under that Act.
3. **Grade designation mark.-** The grade designation mark shall consist of "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorization number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule- I.
4. **Grade designations. -** The Grade designations to indicate the quality of Dates shall be as set out in column (1) of the Table of Schedule II and Schedule III.
5. **Quality. -** For the purpose of these rules, the quality of Dates shall be as specified in Schedule-II and Schedule-III.
6. **Method of packing.-** (1) Dates shall be packed in new clean and dried jute bags or cloth bags or poly woven bags with inner lining of food grade material or any biodegradable packaging materials or poly packs of food grade material or any other packaging material as approved by the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading Rules.
- (2) The packaging material shall be free from insect and/or fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavor or color to the product.
- (3) Dates shall be packed in pack sizes in accordance with the provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and in accordance with the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.
- (4) Graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.
- (5) Each package shall contain Dates of the same type and of the same grade designation.
- (6) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling.
7. **Method of Marking and Labeling.-**
- (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.
- (2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package; namely:-
- (a) Name of the Commodity;
 - (b) Grade;
 - (c) Variety; (optional);
 - (d) Lot number;
 - (e) Date of packing;
 - (f) Net weight;
 - (g) Name and address of the packer;
 - (h) Maximum retail Price (inclusive of all taxes);
 - (i) BEST BEFORE _____ MONTH _____ YEAR; and
 - (j) any other information specified under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006)

or any other law for the time being in force or instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him;

- (3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the Dates.
 - (4) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf, in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rule, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.
8. **Special conditions of certificate of Authorization.**-(1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules every authorised packer shall follow all instructions prescribed by Agricultural marketing Adviser from time to time:—
- (2) The authorized packer shall either set up his own laboratory as per prescribed norms or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a Private Commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of Dates.
 - (3) The premises shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement. The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.
 - (4) The premises of the authorised packer shall have adequate storage facilities with pucca floor, free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation.
 - (5) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf from time to time.

SCHEDULE-I

(See rule 3)

(Design of Agmark insignia)



Name of the Commodity.....

Grade.....

SCHEDULE -II

(See rule 4 and 5)

GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF DATES/KHAJOOR (PITTED)

1. Dates shall be obtained by drying sound, clean fruits of date tree *Phoenix dactylifera* L. varieties conforming to the characteristics, maturity which may have been suitably treated, washed, pasteurized or processed for human consumption.
2. Minimum Requirements:
 - (i) Dates (Pitted) shall.-
 - (a) be properly cleaned;

- (b) have uniform color and achieved appropriate stage of maturity;
 - (c) have pleasant taste and flavor characteristics to the variety;
 - (d) be free from any foreign taste, odor and evidence of fermentation;
 - (e) be free from living insects, dead insects, insect fragments, insect eggs, mites, rodent contamination and mould growth; and
 - (f) be free from any added coloring matter.
- (ii) Domestic trade: - It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and various regulations covered under the Food Safety & Standards Act-2006 for domestic trade.
- (iii) Export trade: - It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for export trade.

3. Criteria for grade designation Dates (Pitted).-

TABLE

Grade Designation	Moisture, (% by mass)	Extraneous matter, (% by mass)	Average weight of 10 fruits, (in Grams)	Pits (Stones) (per 100 Dates)	Blemished & Damaged Dates, (% by count)	Ash insoluble in dilute HCl, (% by mass)
	(Maximum)	(Maximum)	(Minimum)	(Maximum)	(Maximum)	(Maximum)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	14.0	Absent	7.0	Absent	Absent	0.1
Standard	17.0	0.20	6.0	4	2.0	
General	20.0	0.50	4.0	4	5.0	

Explanations.- For the Purpose of this TABLE

- (a)“Extraneous matter” means stalks, pieces of shells, pits, fiber, peel, etc.
 - (b) “Blemished Dates” means Dates affected by sunburn, discoloration, dark sports on the surface.
 - (c)“Damaged Dates” means Dates affected by mashing and/ or tearing of the flesh exposing the pit due to mechanical injury which seriously affects the appearance, edibility and keeping quality or significantly changing the appearance.
4. Other requirements.- (i) The condition of the Dates(Pitted) shall be as to enable it.-
- (a) to withstand transport and handling;
 - (b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.
- (ii) Pitted Dates shall be stored in cool and dry place, maintained in a clean and hygienic condition.
- (iii) Size Classification: - Dates may be classified in accordance with the following table.—

TABLE

Sr. No.	Size	No. of Dates in 500 grams
1.	Small	More than 100
2.	Medium	80 to 100
3.	Large	Less than 80

The size may be marked on the packages.

- (iv) Dates may be treated with one or more of the ingredients such as Sugar, sucrose, invert sugar, dextrose, dried glucose syrup, flour, vegetable oil and honey, as may be appropriate to the product.

SCHEDULE -III

(See rule 4 and 5)

GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF DATES/KHAJOOR (UNPITTED)

1. Dates (Unpitted) shall be obtained by drying sound, clean fruits of date tree *Phoenix dactylifera L.* varieties conforming to the characteristics of which may have been suitably treated, washed, pasteurized or processed for human consumption.
2. Minimum Requirements.-
 - (i) Dates (Unpitted) with seed shall,-
 - (a) be properly cleaned;
 - (b) have uniform color and achieved appropriate stage of maturity;
 - (c) have pleasant taste and flavor characteristics to the variety;
 - (d) be free from any foreign taste, odor and evidence of fermentation;
 - (e) be free from living insects, dead insects, insect fragments, mites, rodent contamination and mould growth; and
 - (f) be free from any added coloring matter.
 - (ii) Domestic trade.- It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and various regulations made under the Food Safety and Standards Act-2006 for domestic trade.
 - (iii) Export trade.- It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for export trade.
3. Criteria for grade designation for Dates (Unpitted).-

TABLE

Grade Designation	Moisture, (% by mass)	Extraneous matter, (% by mass)	Average weight of 10 fruits (in Grams)	No. of Fruits (per 500 gm)	Blemished & damaged Dates, (% by count)	Ash insoluble in dilute HCl, (% by mass)
	(Maximum)	(Maximum)	(Minimum)	(Maximum)	(Maximum)	(Maximum)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	12.0	Absent	6.0	70	Absent	0.1
Standard	16.0	0.5	5.0	80	2.0	
General	20.0	1.0	4.0	100	5.0	

Explanations.- For the Purpose of this TABLE

- (a) "Extraneous matter" means stalks, pieces of shells, pits, fibre, peel, etc.
- (b) "Blemished Dates" means Dates affected by sunburn, discoloration, dark spots on the surface.

(c) “Damaged Dates” means Dates affected by mashing and/ or tearing of the flesh exposing the pit due to mechanical injury which seriously affects the appearance, edibility and keeping quality or significantly changing the appearance.

4. Other requirements.-(i) the condition of the Dates(Unpitted) shall be as to enable it.-

(a) to withstand transport and handling;

(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Dates with seed shall be stored in cool and dry place, maintained in a clean and hygienic condition.

(iii) Size Classification: - Dates may be classified in accordance with the following table.-

TABLE

Sr. No.	Size	No. of Dates in 500 grams
1.	Small	More than 100
2.	Medium	80 to 100
3.	Large	Less than 80

The size may be marked on the packages.

(iv) Dates may be treated with one or more of the ingredients such as Sugar, sucrose, invert sugar, dextrose, dried glucose syrup, flour, vegetable oil and honey, as may be appropriate to the product.

[F. No. Q-11047/03/2018-Std)]

PRASANTA KUMAR SWAIN, Jt. Secy. (Marketing)